

# पैदल चलने वालों की सुरक्षा



सुरक्षित यात्रा के लिए सुझाव

आपकी सुरक्षित रूप से यात्रा करने में मदद करने के लिए इन सुझावों का पालन करें!

संकेतों और सिग्नलों का पालन करें।

जब फुटपाथ उपलब्ध हो, उसी पर चलें।

फुटपाथ नहीं है? ट्रैफिक की ओर मुँह करके और ट्रैफिक से दूर चले।

क्रॉसवॉक या इंटरसेक्शन पर क्रॉस करें।

सड़क पार करने के लिए क्रॉसवॉक सिग्नल इस्तेमाल करें और चलने का सिग्नल आए तब तक प्रतीक्षा करें।

फुटपाथ नहीं है? ट्रैफिक अच्छी तरह से दिखाई दे ऐसा रोशनी वाला क्षेत्र खोजें। ट्रैफिक कम होने की प्रतीक्षा करें।

सड़क पार करते वक्त गाड़ियों के लिए सभी दिशाओं में देखें। बायें देखें, दायें देखें और फिर एक बार बायें देखें।

ड्राइव वे में प्रवेश कर रही या उससे निकल रही या फिर पार्किंग लॉट में रिवर्स जा रही कार के लिए सजग रहे।

सड़क पार करते वक्त ड्राइवर की नज़र से नज़र मिलाकर देखें।

चलते वक्त शराब और नशीले पदार्थों से बचें। वे आपकी क्षमताओं और आपकी निर्णय शक्ति को बदल सकते हैं।

भड़कीले कपड़े पहनें या रिफ्लेक्टिव गियर इस्तेमाल करें। अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते, तो टॉर्च इस्तेमाल करें।

ट्रक और बस के आसपास ब्लाईंड स्पॉट (वह जगह जिसे ड्राइवर चाह कर भी नहीं देख सकता) से बचें।

अभिस्वीकृति:

- मोन्टगोमरी काउंटी स्वास्थ्य और मिनव सेवा विभाग वृद्धावस्था और अक्षमता संबन्धी सेवाएं (Montgomery County Department of Health and Human Services Aging and Disabilities Services)
- मोन्टगोमरी काउंटी परिवहन विभाग (Montgomery County Department of Transportation)

